

जैन बाल योथी

भाग 1



जैन बालपोथी

भाग - १



लेखक :
स्व. ब्र. हरिभाई

प्रकाशक :

पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट
ए-४, बापूनगर, जयपुर - 302015
फोन : 707458, 705581

जैन बाल पोथी भाग-1

हिन्दी :

प्रथम टेइस संस्करण

चौबीसवाँ संस्करण

(7 फरवरी, 2017)

कविवर बनारसीदास जयन्ती

स्व. ब्र. हरिभाई

92 हजार 200

1 हजार

योग : 93 हजार 200

ગुજરाती :

नौ संस्करण

43 हजार

मराठी :

चार संस्करण

19 हजार

कन्नड़ :

दो संस्करण

10 हजार

अंग्रेजी :

तीन संस्करण

15 हजार

कुल संख्या

1 लाख 80 हजार 200

मूल्य : सात रुपया

मुद्रक :

सन् एन सन् आँफसेट

तिलकनगर, जयपुर (राज.)

प्रकाशकीय

(चौबीसवाँ संस्करण)

जैन बालपोथी भाग-1 का नवीन संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आठ दस वर्ष के बालक भी रुचिपूर्वक तत्त्वज्ञान का अभ्यास कर सकें इस हेतु से यह 'जैन बाल पोथी' दो भागों में तैयार की गई है।

अभ्यास करने में बालकों का मन लगे ऐसे ढंग से इसमें छोटे-छोटे पाठों द्वारा जीव-अजीव, द्रव्य-गुण-पर्याय, धर्म, देव-गुरु-शास्त्र, पंच-परमेष्ठी, सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र-शिकार त्याग, जैनधर्म, मुक्त और संसारी, जीव और कर्म, भगवान महावीर का जीवन चरित्र, देव-दर्शन, हिंसादि पापों के त्याग का उपदेश, क्रोधादि के त्याग का उपदेश, कीर्तन संचय, देव-शास्त्र-गुरु को वंदन, आत्मदेव का वर्णन और वैराग्य भावनाएँ आदि विषयों को समाहित किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक पाठ में विषय के अनुसार चित्र भी दिए गये हैं, जिससे बच्चों को रोचकता प्रतीत होगी।

इस बालपोथी के पाठ बालकों को केवल कंठस्थ कराने के लिए ही नहीं हैं, अपितु बालकों को प्रत्येक पाठ का भाव समझाकर उसका अभ्यास कराना चाहिए और चित्रों के माध्यम से उसका हृदयांगम कराना चाहिए। कीर्तन, देव-दर्शन आदि पाठों को क्रियात्मक रूप में सिखाना चाहिए।

यह पुस्तक हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा में अब तक 1 लाख 79 हजार 200 की संख्या में प्रकाशित हो चुकी है। हिन्दी भाषा में इसका यह चौबीसवाँ संस्करण है जो 1000 की संख्या में प्रकाशित किया गया है। इस कृति के माध्यम से सभी बालक शुद्धात्मदशा को प्राप्त हों, ऐसी कामना है।

— डॉ. यशपाल जैन, एम.ए.
प्रकाशन मंत्री

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ
01.	जीव	01
02.	शरीर	02
03.	जीव और अजीव	03
04.	द्रव्य-गुण-पर्याय	04
05.	परीक्षा	05
06.	हाँ और ना	06
07.	धर्म	07
08.	समझ	08
09.	भगवान्	09
10.	गुरु	10
11.	शास्त्र	11
12.	जैन बालक का हालरिया	12
13.	सम्यगदर्शन	14
14.	सम्यग्ज्ञान	15
15.	सम्यक्चारित्र	16
16.	जैन	17
17.	राजा की कहानी	18
18.	मुक्त और संसारी	19
19.	जीव और कर्म	20
20.	श्री महावीर भगवान्	21
21.	इतना करना	25
22.	अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ	26
23.	कभी नहीं	27
24.	धुन	28
25.	बन्दन	29
26.	आत्मदेव	30
27.	मुझे बताओ	31
28.	मेरी भावना	32

बालकों से



धर्मप्रेमी बालको !

तुम भगवान महावीर की संतान हो ।


तुम्हारे हाथों में यह बालपोथ्री देखकर
किसको आनन्द नहीं होगा ?

तुम इसे प्रेम से पढ़ना ।

पढ़ने के लिए हमेशा पाठशाला जाना ।

आत्मा को समझा कर तुम भी भगवान बनना ।

वीर प्रभु की हम संतान



वीर प्रभु की हम संतान।
 धारें जिन सिद्धान्त महान्।
 समझें पढ़ने में कल्यान।
 गावें गुरुवर का गुणगान॥ वीर. ॥
 पढ़ कर बनें वीर विद्वान्,
 पावें निश्चय आत्म-ज्ञान।
 गुरु उपकार हृदय में आन,
 उनको नमें सहित सम्मान॥ वीर. ॥

जीव



मैं जीव हूँ।

मुझ में ज्ञान है।

मैं ज्ञान से जानता हूँ।

शरीर



शरीर अजीव है ।

उसमें ज्ञान नहीं है ।

वह कुछ जानता नहीं है ।

जीव और अजीव



मैं जीव हूँ।
शरीर अजीव है।
जीव में ज्ञान है।
अजीव में ज्ञान नहीं है।
मुझ में ज्ञान है।
शरीर में ज्ञान नहीं है।
मैं अपने ज्ञान से सबको जानता हूँ।
शरीर किसी को नहीं जानता।
जीव और शरीर अलग अलग हैं।

द्रव्य-गुण-पर्याय



मैं जीव-द्रव्य हूँ।

ज्ञान मेरा गुण है।

जानना मेरी पर्याय है।


जीव-द्रव्य में ज्ञान-गुण है।

अजीव-द्रव्य में ज्ञान-गुण नहीं है।

जीव-द्रव्य जानता है।

अजीव-द्रव्य नहीं जानता।

परीक्षा



बालको !

बताओ तुम कौन हो ? – जीव, जीव, जीव।

तुम्हारे में क्या है ? – ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान।

तुम क्या करते हो ? – जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं।

शरीर कौन है ? – अजीव, अजीव, अजीव।

क्या उसमें ज्ञान है ? – नहीं, नहीं, नहीं।

क्या वह किसी को जानता है ? – नहीं, नहीं, नहीं।

क्या शरीर तुम्हारा है ? – नहीं, नहीं, नहीं।

क्या शरीर का काम तुम करते हो ? – नहीं, नहीं, नहीं।

हाँ और ना



बताओ –

तुम जीव हो ? – हाँ, हाँ, हाँ।

शरीर जीव है ? – ना, ना, ना।

तुम्हारे में ज्ञान है ? – हाँ, हाँ, हाँ।

शरीर में ज्ञान है ? – ना, ना, ना।

तुम सब को जानते हो ? – हाँ, हाँ, हाँ।

शरीर कुछ जानता है ? – ना, ना, ना।

तुम शरीर को जानते हो ? हाँ, हाँ, हाँ।

तुम शरीर का काम करते हो ? – ना, ना, ना।

तुम्हें सुखी होना है ? – हाँ, हाँ, हाँ।

तुम्हें दुखी होना है ? – ना, ना, ना।

तुम आत्मा को पहिचानोगे ? – हाँ, हाँ, हाँ।

तुम अज्ञानी रहोगे ? – ना, ना, ना।

धर्म



मुझे सुखी होना है।

जो धर्म करता है वह सुखी होता है।

जो धर्म नहीं करता है वह दुःखी होता है।

मुझे धर्म करना है।

जीव में धर्म होता है।

शरीर में धर्म नहीं होता।

मैं जीव हूँ, मुझ में धर्म होता है।

शरीर अजीव है, उसमें धर्म नहीं होता।

जीव एक द्रव्य है।

धर्म उसकी पर्याय है।

समझ



ज्ञान से धर्म होता है।

अज्ञान से अधर्म होता है।

जिसमें ज्ञान होता है वह धर्म को समझता है।

जीव में ज्ञान है। जीव धर्म को समझता है।


शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर धर्म नहीं समझता।

मैं जीव हूँ।

मुझ में ज्ञान है।

मैं अपने ज्ञान से धर्म को समझता हूँ।

भगवान्



‘णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं ।’

धर्म अर्थात् आत्मा की समझ ।

जो आत्मा को समझता है वह भगवान् होता है ।

भगवान् को पूरा ज्ञान होता है ।

भगवान् को तनिक भी राग नहीं होता ।

भगवान् सब को जानते हैं ।

भगवान् किसी का कुछ भी नहीं करते ।

भगवान् को भूख नहीं लगती ।

भगवान् कुछ नहीं खाते ।

‘अरिहन्त’ भगवान् हैं । ‘सिद्ध’ भगवान् हैं ।

महावीर भगवान् सिद्ध हैं ।

सीमंधर भगवान् अरिहंत हैं ।

अरिहंत के शरीर होता है । सिद्ध के शरीर नहीं होता ।

प्रतिदिन भगवान् के दर्शन करना चाहिए ।

गुरु



‘णमो आइरियाणं । णमो उवज्ज्ञायाणं ।

णमो लोए सब्बसाहूणं ।’

इधर एक मुनि हैं । मुनि हमारे गुरु हैं ।

वे आत्मा के ध्यान में बैठे हैं ।

पास में कमण्डल और पीछी है ।

सच्चे मुनि को आत्मज्ञान होता है ।

कुन्दकुन्द मुनि आचार्य थे ।

आचार्य भी मुनि हैं, उपाध्याय भी मुनि हैं, साधु भी मुनि हैं ।

सब मुनि हमारे गुरु हैं ।

गुरु हम को धर्म का उपदेश देते हैं ।


सदा गुरु के दर्शन तथा उनकी विनय और भक्ति करना ।

शास्त्र



यह समयसार है। यह एक शास्त्र है।
 शास्त्र आत्मा को समझाते हैं।
 जिसकी ज्ञानी रचना करें वह शास्त्र है।
 उस शास्त्र से आत्मा की पहिचान होती है।
 जिसे अज्ञानी बनायें वह कुशास्त्र है।
 उससे आत्मा की पहिचान नहीं होती।
 शास्त्र में ज्ञान नहीं है। वह कुछ जानता नहीं है।
 जीव में ज्ञान है। जीव सब कुछ जानता है।
 समयसार-शास्त्र बहुत अच्छा है।
 इससे आत्मा का ज्ञान होता है।
 कुन्दकुन्द आचार्य ने इसकी रचना की है।
 सदा शास्त्र का दर्शन और स्वाध्याय करना चाहिये।

जैन बालक का हालरिया (लोरी)



‘अरिहन्त’ पिता जी तेरे, ‘जिनवाणी’ माता तेरी,
मेरे भैया ! अरिहन्त सहज है होना ।



‘प्रभु सिद्ध’ पिता जी तेरे, ‘जिनवाणी’ माता तेरी,
मेरे भैया ! प्रभुसिद्ध सहज है होना ।



‘आचार्य’ पिता जी तेरे, ‘जिनवाणी’ माता तेरी
मेरे भैया ! ‘आचार्य’ सहज है होना ।



‘उपाध्याय’ पिता जी तेरे, ‘जिनवाणी’ माता तेरी,
मेरे भैया ! ‘उपाध्याय’ सहज है होना ।



‘मुनिराज’ पिता जी तेरे, ‘जिनवाणी’ माता तेरी,
मेरे भैया ! ‘मुनिराज’ सहज है होना ।



‘जिनशासन’ धर्म तुम्हारो, स्वाभाविक मर्म सँभारो ।
मेरे भैया ! ‘जिनधर्म’ सहज है समझना ।

सम्यगदर्शन



सम्यगदर्शि बालक

चैतन्य स्वभाव आत्मा

यैतन्य उपभोव आत्मा

सम्यगदर्शि बालक

सम्यगदर्शन अर्थात् सच्ची श्रद्धा।

सच्ची श्रद्धा अर्थात् आत्मा का विश्वास।

अपना आत्मा पूरा है, अपना आत्मा भगवान है।

अपने आत्मा का विश्वास करे तो सम्यगदर्शन हो।

सम्यगदर्शन हो तो अवश्य मोक्ष हो।

सम्यगदर्शन धर्म का मूल है।

सम्यगदर्शन प्रत्येक जीव के लिए बहुत आवश्यक है।

सम्यगदर्शन के बिना ही जीव संसार में भटकता है।

सम्यगदर्शन के बिना कभी भी धर्म नहीं होता।

आत्मा की सच्ची श्रद्धा ही सब से पहला धर्म है।

आत्मा की झूठी श्रद्धा ही सब से बड़ा पाप है।

सब से पहले क्या करोगे ?

‘सम्यगदर्शन का अभ्यास।’

सम्यग्ज्ञान



सम्यग्ज्ञान अर्थात् सच्ची समझ ।
 सच्ची समझ अर्थात् आत्मा की पहचान ।
 ‘आत्मा ज्ञानवाला है, आत्मा शरीर से अलग है,
 जीव को राग होता है, वह उसका गुण नहीं है’
 – ऐसा समझे तो सच्चा ज्ञान हो ।
 सच्चा ज्ञान हो तब झूठा ज्ञान हटे ।
 सच्चा ज्ञान हो तब सुख प्रगटे ।
 सच्चा ज्ञान हो तब धर्म हो ।
 सच्चा ज्ञान हो तब संसार से छूटे ।
 सच्चा ज्ञान हो तब आप भगवान हो ।
 सच्चा ज्ञान ही सब से पहला धर्म है ।
 अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है ।
 तुम क्या करोगे ?
 ‘आत्मा का सच्चा ज्ञान और अज्ञान का नाश ।’

सम्यक्चारित्र



सम्यक्चारित्र अर्थात् सच्चा आचरण ।

आत्मा को पहचान कर उसमें रहना सो सम्यक्चारित्र है ।
जो आत्मा को पहचाने उसके ही सच्चा चारित्र होता है ।

जो आत्मा को नहीं पहचाने उसके सच्चा चारित्र नहीं होता ।
सम्यक्चारित्र सम-भाव है । सम्यक्चारित्र शान्ति है ।

सम्यक्चारित्र धर्म है ।

जिसके सम्यक्चारित्र हो उसे मुनि कहा जाता है ।

सम्यक्चारित्र से शीघ्र मोक्ष होता है ।

पहले सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान, पीछे सम्यक्चारित्र ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, तीनों मिलकर
मोक्ष का मार्ग है और किसी तरह से भी मोक्ष नहीं होता ।

बालको ! तुम भी आत्मा की पहचान करके

सम्यक्चारित्र की भावना करो ।

जैन



जैन अर्थात् जीतने वाला

जैन अर्थात् आत्मा का स्वभाव।

जो आत्मा को पहचाने सो जैन कहलाये।

जो आत्मा को नहीं पहचानता वह जैन नहीं कहला सकता।

आत्मा को पहचान कर जो अज्ञान को जीते सो जैन।

आत्मा के वीतराग-भाव से जो राग-द्वेष को जीते सो जैन।

जिसने राग-द्वेष को दूर किया है वह जिनदेव है।

जिनदेव ही सच्चे भगवान हैं।

भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान वीतराग हैं।

जैन मांस नहीं खाते। जैन मधु (शहद) नहीं खाते।

जैन मदिरा नहीं पीते।

जैनधर्म अनेकांतवादी है।

राजा की कहानी



एक था राजा । वह जंगल में शिकार करने गया । जंगल में एक मुनिराज थे । राजा ने उनको नमस्कार किया । मुनिराज ने कहा — ‘हे राजन् ! शिकार करने से पाप होता है । पाप से जीव नरक में जाता है; वहाँ वह बहुत दुखी होता है ।

यह सुनकर राजा रो पड़ा और मुनिराज से पूछा — ‘प्रभो ! मेरा पाप कैसे दूर हो और मैं कैसे सुखी होऊँ ?’

मुनिराज ने कहा — ‘हे राजन् ! सुख तेरे आत्मा में ही है । तू शिकार करना छोड़ दे और आत्मा की पहचान कर, इससे तू सुखी होगा ।’



इसके बाद राजा ने शिकार करना छोड़ दिया और मुनिराज के पास रहकर आत्मा की पहचान की तथा सुखी हुआ । अन्त में वह संसार से छूटकर मोक्ष में गया ।

बालको ! पाप छोड़ो, आत्मा को समझो तो सुखी होओगे ।

मुक्त और संसारी



जीव दो तरह के हैं – एक मुक्त और दूसरे संसारी।

मुक्त जीव शुद्ध हैं, संसारी जीव अशुद्ध हैं।

मुक्त जीव मोक्ष में रहते हैं, उनको पूरा सुख प्राप्त है।

उनके राग-द्वेष नहीं होता, उनके जन्म-मरण नहीं होता।

वे कभी संसार में नहीं आते, वे दूसरों का कुछ भी नहीं करते।

सिद्ध भगवान् मुक्त जीव हैं।

अरिहन्त भगवान् भी जीवन्मुक्त हैं।

संसारी जीवों के जन्म-मरण होता है।

स्वर्ग के जीव संसारी हैं, नरक के जीव संसारी हैं।


तिर्यंच के जीव संसारी हैं और मनुष्य के जीव भी संसारों हैं।

संसारी जीव दुखी हैं; मुक्त जीव सुखी हैं।

आत्मा को न पहिचाने तब तक जीव संसार में भटकता है।

यदि आत्मा को पहिचाने तो अवश्य मुक्ति पाता है।

जीव और कर्म



कर्म अजीव हैं।
 कर्म में ज्ञान नहीं है।
 जीव में ज्ञान है।
 जीव और कर्म अलग हैं।
 जीव में कर्म नहीं।
 कर्म में जीव नहीं।
 जीव अज्ञान से हैरान होता है।
 कर्म जीव को हैरान नहीं करते।
 जीव अपनी भूल से दुखी होता है।
 कर्म जीव को दुखी नहीं करते।
 जीव की पहचान करना चाहिए।
 कर्म का दोष नहीं निकालना चाहिए।
 जीव को पहचानना धर्म है।
 कर्म का दोष निकालना अधर्म है।

श्री महावीर भगवान




क्या तुम भगवान महावीर को पहचानते हो ? जैसे तुम आत्मा हो, वैसे ही महावीर भगवान भी एक आत्मा हैं। उन्होंने आत्मा की पहचान की और राग-द्वेष को दूर किया। इसी से वे भगवान हुए।

यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम भी भगवान हो जाओगे।

‘महावीर’ के पिता जी का नाम सिद्धार्थ राजा और माता का नाम त्रिशला देवी था। उनका जन्म चैत्र सुदी 13 के दिन कुण्डलपुर नगर में हुआ था। जन्म से ही वे महान् आत्मज्ञानी और वैरागी थे। स्वर्ग से देव उनकी सेवा करने आते थे और छोटे-छोटे बालकों का रूप धारण कर उनके साथ खेलते थे।

खेलते हुए एक दिन एक देव ने बड़े सर्प का रूप बनाया और सब बालकों को डराने लगा, किन्तु महावीर ने उसे उठाकर दूर फैंक दिया।





फिर एक बार राजा का
हाथी पागल होकर भागा और
लोगों को परेशान करने लगा,
तब बालक महावीर जाकर उसे
पकड़ लाये।

राजकुमार महावीर जब बड़े हुए तब एक बार उनको अपने
पूर्वभव का ज्ञान हुआ।



पूर्वभव का ज्ञान होते ही उनको बहुत वैराग्य जागृत हुआ
जिससे वे दीक्षा लेकर मुनि हो गये।



उनको आत्मा की पहचान तो थी ही । मुनि होने के बाद वे आत्मा का ध्यान करने लगे । आत्मा के ध्यान से उनके ज्ञान की शुद्धता बढ़ने लगी और राग छूटने लगा । ऐसा करते-करते सम्पूर्ण राग का नाश हो गया और पूर्ण ज्ञान प्रगट हुआ । इससे वे भगवान् हुए अर्थात् अरिहन्त कहलाये ।

इसके बाद उनका धर्मोपदेश होने लगा । उपदेश सुनने के लिए जीवों के झुण्ड के झुण्ड आये । स्वर्ग के देव आये और बड़े-बड़े राजा आये । आठ वर्ष के बालक भी आये और उन्होंने आत्मा को समझा । जंगल से सिंह आये, चीते आये, हाथी आये, बन्दर आये, बड़े-बड़े सर्प आये और छोटे-छोटे मैंदक भी आये और उन्होंने आत्मा को समझा ।





महावीर भगवान ने बहुत वर्षों तक धर्म का उपदेश देकर जैनधर्म का बहुत प्रसार किया। अन्त में वे पावापुरी से मोक्ष पथारे। पहले वे अरिहन्त थे, अब सिद्ध हो गये।


कार्तिक कृष्ण 14 की रात्रि के पिछले प्रहर में वे मोक्ष पथारे। इसीलिए सर्वत्र दीपावली-महोत्सव मनाया जाता है।

इस समय महावीर भगवान मोक्ष में विराजमान हैं, वहाँ वे पूर्ण आनन्द में हैं।

बालको ! महावीर भगवान की तरह तुम भी आत्मा को पहिचानो, राग-द्रेष को त्यागो और मोक्ष को प्राप्त करो।



इतना करना




बालको ! सबेरे जल्दी उठना ।
 उठकर आत्मा का विचार करना,
 प्रभु का स्मरण करना और नमस्कार मंत्र बोलना ।
 फिर स्वच्छ वस्त्र पहिनकर जिनमन्दिर जाना ।
 जिनमन्दिर जाकर भगवान के दर्शन करना ।
 इसके बाद शास्त्र जी को वन्दन करना ।
 और उनका पठन करना ।
 फिर गुरु जी के दर्शन करना, उनका उपदेश सुनना और
 सुनकर विचार करना ।
 हर रोज इतना करना ।
 ऐसा करने से तुम्हारा जीवन पवित्र होगा ।

अच्छी-अच्छी शिक्षायें



- (1) आत्मदेव को कभी न भूलना,
हिंसा कभी नहीं करना।
- (2) सिद्ध प्रभु को कभी न भूलना,
झूठी बात कभी नहीं करना।
- (3) गुरु की स्तुति करना न भूलना,
चोरी कभी नहीं करना।
- (4) शास्त्र जहाँ तहाँ कभी न रखना,
रात्रि-भोजन नहीं करना।
- (5) सदा शान्त, सन्तोषी रहना,
ममता कभी नहीं करना।
- (6) इन बातों को अवश्य मानना,
इसमें कभी भूल नहीं करना।

कभी....नहीं




कभी धर्म नहीं छोड़ना।
 कभी क्रोध नहीं करना।
 कभी हठ नहीं करना।
 कभी कपट नहीं करना।
 कभी लालच नहीं करना।
 कभी दया नहीं छोड़ना।
 कभी भय नहीं करना।
 कभी प्रमाद नहीं करना।
 कभी जुआ नहीं खेलना।
 कभी निन्दा नहीं करना।
 कभी दोष नहीं छिपाना।

धुन



- (1) सहजानन्दी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप ।
- (2) स्व-पर-प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानन्दधन प्राण हमारा ।
स्वयं ज्योति सुखधाम हमारा, रहे अटल यह ध्यान हमारा ॥
- (3) देव हमारे श्री अरहन्त, गुरु हमारे निग्रन्थ सन्त ॥
- (4) अरिहन्त सदा जयवन्त रहो, चैतन्य सदा जयवन्त रहो ।
गुरुदेव सदा जयवन्त रहो, जिनधर्म सदा जयवन्त रहो ॥
- (5) देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरामर मैं आत्मस्वरूप ॥

वंदन



- (1) वंदन हमारा प्रभु जी को तुम को।
वंदन हमारा गुरु जी तुम को॥ वंदन॥
- (2) वंदन हमारा सिद्ध प्रभु को।
वंदन हमारा अरिहन्त देव को॥ वंदन॥
- (3) वंदन हमारा सब मुनिवर को।
वंदन हमारा धर्म-शास्त्र को॥ वंदन॥
- (4) वंदन हमारा सब ज्ञानी को।
वंदन हमारा चैतन्य देव को॥ वंदन॥
- (5) वंदन हमारा आत्म-स्वभाव को।
वंदन हमारा आत्मप्रभु को॥ वंदन॥

आत्म-देव



- (1) मुझे देखना आत्मदेव कैसा है ?
देव कैसा है, क्या करता है ? मुझे देखना. ॥
- (2) वही देवाधिदेव, वही भगवान जो,
वही परमेश्वर कैसा है ? मुझे देखना. ॥
- (3) जाने सभी विश्व, झलके सभी जहाँ,
दर्पण समान देव कैसा है ? मुझे देखना. ॥
- (4) न्यारा है विश्व से, न्यारा है देह से,
आनन्द से एकमेक कैसा है ? मुझे देखना. ॥
- (5) जन्मे मरे नहीं, राजा व रंक नहीं,
सागर आनन्द का कैसा है ? मुझे देखना. ॥
- (6) आँखों दीखे नहीं, कानों सुनूँ नहीं,
ज्ञान में समाय, वह कैसा है ? मुझे देखना. ॥

मुझे बताओ



- (1) बतला दो, वह आत्मा कैसा है ?
कहाँ कैसा है, कहाँ रहता है ? बतला दो. ॥
- (2) जो जाने सभी को, देखे सभी को,
ऐसा वह आत्मा कैसा है ? बतला दो. ॥
- (3) आप ही प्रभु है, आप ही सिद्ध है,
आप ही ज्ञान का दरिया है ॥ बतला दो. ॥
- (4) भिन्न शरीर से, भिन्न वचन से,
तो भी आनन्द से भरिया है ॥ बतला दो. ॥
- (5) जन्म बिना का, मरण बिना का,
वह राग बिना का, कैसा है ? बतला दो. ॥
- (6) जो आँखों दीखे नहीं, ज्ञान से दीखे।
मुझे उस जीव को देखना है ॥ बतला दो. ॥

मेरी भावना



- (1) मुझे प्रभु का दर्शन करना है।
मुझे आत्मा का दर्शन करना है॥ मुझे॥
- (2) मुझे ज्ञानी की सेवा करनी है।
मुझे समझ सच्ची करनी है॥ मुझे॥
- (3) मुझे पठन शास्त्र का करना है।
मुझे मोह-अँधेरा हरना है॥ मुझे॥
- (4) मुझे वैराग्य सच्चा करना है।
मुझे संग मुनि का करना है॥ मुझे॥
- (5) मुझे संसार से पार पाना है।
मुझे झटपट मोक्ष में जाना है॥ मुझे॥

मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ
(डॉ. हुकमचन्द भारिल्ह, जयपुर)

मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण,
पर की मुझ में कुछ गन्ध नहीं।
मैं अस अस्ती अस्पर्शी,
पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं॥

मैं रंग-राग से भिन्न, भेद से
भी मैं भिन्न निराला हूँ।
मैं हूँ अखण्ड चैतन्यपिण्ड,
निज रस में रमने वाला हूँ॥

मैं ही मेरा कर्ता-धर्ता,
मुझ में पर का कुछ काम नहीं।
मैं मुझ में रहने वाला हूँ,
पर मैं मेरा विश्राम नहीं॥

मैं शुद्ध, बुद्ध, अविरुद्ध, एक,
पर-परिणति से अप्रभावी हूँ॥
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्त्व,
मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ॥

हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन

ग्रंथ का नाम	मूल्य(रु.)
मोक्षशास्त्र	60
चौबीस तीर्थकर महापुराण	50
बृहद जिनवाणी संग्रह	45
रत्नकरण्डश्रावकाचार/समयसार	40
मोक्षमार्ग प्रवचन भाग- 1	35
प्रवचनसार/सम्यज्ञानचन्द्रिका भाग 2(उत्तरार्ध)	30
समयसार नाटक/मोक्षमार्गप्रकाशक	25
सम्यज्ञानचन्द्रिका भाग 2 (पर्वार्द्ध) एवं भाग 3 /बृहद द्रव्यसंग्रह	25
जिनेन्द्र अर्चना/दिव्यध्वनिसार प्रवचन/नियमसार	25
योगसार प्रवचन/तीनलोकमंडल विधान/समयसार कलश/चन्तन की गहराईयाँ	20
प्रवचनरत्नाकर भाग 3,4,8,9 /नयप्रज्ञापन/समाधितंत्र प्रवचन	20
पं. टोटरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व /समयसार अनुशीलन भाग 1,2,3,4	20
आचार्य अमृतचन्द्र : व्यक्तित्व और कर्तृत्व	20
पंचास्तिकाय संग्रह/सिद्धचक्र विधान/ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	18
भावदीपिका/कार्तिकेयानुप्रेक्षा/प्रवचनरत्नाकर भाग 6	16
परमभावप्रकाशक नयचक्र/पुरुषार्थसिद्ध्युपाय/ज्ञानगोष्ठी	16
सूक्षिसुधा/आत्मा ही है शरण/आत्मानुशासन/संस्कार/इन भावों का फल क्या होगा	15
इन्द्रध्वज विधान/ध्वलासार/प्रवचनरत्नाकर भाग 2/रामकहानी/गुणस्थान विवेचन	15
सुखी जीवन	14
सर्वोदय तीर्थ/प्रवचनरत्नाकर भाग 7/सत्य की खोज/निर्विकल्प आत्मानुभूति के पूर्व	12
विखेरे मोती/तीर्थकर भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ	12
श्रावकधर्मप्रकाश/कल्पद्रुम विधान	11
वी.वि. पाठमाला भाग 1,2,3/वी.वि. प्रवचन भाग 4 /चौबीस तीर्थकर पूजा	10
तत्त्वज्ञान तरंगणी/रत्नत्रय विधान/भक्तामर प्रवचन/बारह भावना : एक अनुशीलन	10
धर्म के दशलक्षण/विदाई की बेला /पंचमेरु नंदीश्वर विधान/सुखी होने का उपाय भाग 6,7	10
जैनतत्त्व परिचय/करणानुयोग परिचय/आ. कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार	10
कालजयी बनारसीदास	10
बालबोध भाग 1,2,3/तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग 1,2/छहडाला(सचित्र)/भ. क्रष्णभद्रेव	8
शीलवान सुर्दर्शन /सुखी होने का उपाय भाग 2,3/प्रशिक्षण निर्देशिका/जैन विधि-विधान	8
क्रमबद्धपूर्याय/बारसाणुवेक्षा	8
गागर में सागर/आप कुछ भी कहो/वीस तीर्थकर विधान/ 170 तीर्थ. विधान	7
चौबीस तीर्थकर विधान/सुखी होने का उपाय भाग 1 से 4	7
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महाओत्सव /जैनधर्म की कहानियाँ भाग 1 से 13 तक/अहिंसा के पथ पर	6
जिनवरस्य नयचक्रम्/णामोकार महामंत्र/कारणशुद्धपूर्याय/वीतराग-विज्ञान प्रवचन भाग-5	6
चौसठ क्रद्धि विधान/दशलक्षण विधान/आचार्य कुन्दकुन्ददेव/पंचपरमेष्ठी विधान	6
विचार के पत्र विकार के नाम	6
आचार्य कुन्दकुन्द और उनके पंच परमागम/परीक्षामुख/मुक्ति का मार्ग/रत्नत्रय विधान	5
यगापूरुष कानौजीवाणी/सामाज्य श्रावकाचार/अलिंगाग्रहण प्रवचन/जिनधर्म प्रवेशिका	5
मैं कौन हूँ/सत्तास्वरूप/वीर हिमाचलते निकसी/समयसार : मनीषियों की दृष्टि में	4
ब्रती की घ्यारह प्रतिमाएँ/पदार्थ-विज्ञान/मैं ज्ञानानन्दस्वभावी हूँ/महावीर बदना (कैलेण्डर)	3
वस्तुस्वातंत्र्य/भरत-बाहुबली नाटक/शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति	3